

# KENDRIYA VIDYALAYA, AFS BAGDOGRA

05.08.2021

## NOTICE FOR ADMISSION IN CLASS XI FOR THE SESSION 2021-22

### FOR THE STUDENTS OF KV AFS BAGDOGRA :

All the students of KV AFS Bagdogra who have passed AISSE 2021 are informed that the admission in class XI will be done from 9<sup>th</sup> August 2021 to 13<sup>th</sup> August 2021. They are instructed to submit the scanned copy of duly filled option form (attached with this sheet) along with marksheet to the designated email [kvafsbagdograadmission@gmail.com](mailto:kvafsbagdograadmission@gmail.com) before 8<sup>th</sup> August 2021 (5:00 PM).

### FOR THE STUDENTS OF NEIGHBOURING KVs :

Students of other KVs may also apply for admission in class XI for the stream which is not available in their school from 9<sup>th</sup> August 2021 to 13<sup>th</sup> Aug 2021 (from 10:00 AM to 12:30 PM) at the Air Force Auditorium, near Arjan Gate, Air Force Station, Bagdogra with the following documents :

- i) Registration form (enclosed below)
- ii) Option form (enclosed below)
- iii) Copy of downloaded marksheet
- iv) Original copy of Transfer Certificate issued by KV
- v) Copy of Birth Certificate
- vi) Copy of Caste Certificate (if any)

### ELIGIBILITY CRITERIA :

Admission in different streams viz Science and Commerce of Class XI in KVs for KV students will be based on Marks scored in class X exams as under:

1. **Science Stream:** A minimum of 60% Marks in aggregate of all subjects
2. **Commerce Stream:** A minimum of 55% Marks in aggregate of all subjects.

### DETAIL OF FEE (FROM APRIL TO SEPTEMBER 2021)

SCIENCE WITH COMPUTER SCIENCE	SCIENCE WITHOUT COMPUTER SCIENCE	COMMERCE
RS. 6300	RS. 6000	RS. 5400

### FOR GIRL STUDENTS AND STUDENTS BELONGING TO SC/ST CATEGORY UNDER CATEGORY V

SCIENCE WITH COMPUTER SCIENCE	SCIENCE WITHOUT COMPUTER SCIENCE	COMMERCE
RS. 3900	RS. 3600	RS. 3600

Rs. 25/- will be charged as Admission charges from the students of other KVs.

**\*NO FEES FOR SINGLE GIRL CHILD WILL BE CHARGED**

### FOR NON-KV STUDENTS :

Admissions to non-KV children may be granted only if seats remain vacant in class XI after admitting the children of KV/ neighbouring KVs as per KVS Admission Rules, in the sequence of categories of priority. Notice will be given accordingly on 18th July 2021, if required.

PRINCIPAL

# KENDRIYA VIDYALAYA AFS BAGDOGRA

OPTION FORM FOR ADMISSION TO CLASS – XI (Session: 2021-22)

## (FOR KV STUDENTS ONLY)

**NAME OF PREVIOUS K.V.** \_\_\_\_\_ (from where the student has qualified AISSE)

- Name of the Candidate: \_\_\_\_\_ (in block letters)  
Previous class and sec.- \_\_\_\_\_, Admission no. \_\_\_\_\_
- Father's name: \_\_\_\_\_ (in block letters) Occupation: \_\_\_\_\_
- Mother's Name: \_\_\_\_\_ (in block letters) Occupation: \_\_\_\_\_
- Present Postal Address: \_\_\_\_\_  
Tel: \_\_\_\_\_ Mobile No. (Father) \_\_\_\_\_, Mobile No. (Mother) \_\_\_\_\_  
E-mail Id \_\_\_\_\_
- (a) Gender: \_\_\_\_\_ (M/F), (b) Category: \_\_\_\_\_ (Gen/SC/ST OBC/Others)
- Date of Birth (in figures): \_\_\_\_\_ (DD/MM/YYYY)
- Marks obtained in AISSE 2021:

S.No.	Subjects	Marks	S.No.	Subjects	Marks
1			4		
2			5		
3			6		

**8. Overall Percentage in AISSE 2021:** \_\_\_\_\_

9. Tick the appropriate option for concession. (Attach the relevant certificate if any)

- Certificates of Participation in Games & Sports (KVS Regional/National, SGFI)
- Scout / Guide Certificates (Rastropati Purushkar/ Rajya Purushkar award with 7 proficiency badges/ Tritya Sopan Certificate with 5 proficiency badges)
- Participated in 10 Days Adventure Activities.
- SC/ST Certificate
- NCC A cert. with PM rally/best Cadet in dist. Or state level/ A Certificate

  
  
  
  

## SUBJECT COMBINATION FOR CLASS – XI

Mark the choice of subjects in option 1 or 2 given below by putting a tick on the top of the subject :

**1. English, Physics, Chemistry, (Biology/Comp. Sci), (Maths/Hindi), Physical Education (Additional)**

**2. English, Maths/Hindi, Accountancy, Business Studies, Economics, Physical Education(Additional)**

I do hereby declare that the information furnished above is true to the best of my knowledge and belief. My claim will be forfeited if the information furnished above is found to be wrong at a later stage.

**Signature of the Student**

**Date:**

**Signature of the Parent**

**Date:**

.....  
(For Office Use Only)(Tick {v} the appropriate Option)

Stream allotted – Science / Commerce    Option :- 1 / 2    Class ..... Sec .....

Admission (I/C)

Principal



केन्द्रीय विद्यालय \_\_\_\_\_, सम्भाग \_\_\_\_\_

Kendriya Vidyalaya \_\_\_\_\_, Region \_\_\_\_\_

## पंजीकरण प्रपत्र/Registration Form

Paste latest  
Photograph of  
ChildClass :  Reg. No. : 

## 1. विद्यार्थी का पूरा नाम (स्पष्ट शब्दों में)

Name of the Child in full (in Capital letters): .....

लिंग / Sex : पुरुष / Male  स्त्री / Female  तृतीय लिंग / Third Gender 

## 2. जन्म तिथि (अंकों में) / Date of Birth (in figure) : दिन / Day मास / Month वर्ष / Year

शब्दों में / In words : .....

## 3. 31.03.2021 तक आयु/ Age as on 31.03.2021 वर्ष / Year मास / Month दिन / Day

4. बच्चे का रक्त समूह (Rh फैक्टर सहित) / Blood Group of the Child (With Rh Factor) : 

## 5. बच्चे की सम्बंधित श्रेणी General SC ST OBC-CL OBC-NCL EWS BPL Diff. Abled SG Child (Attach Certificate\*)

## 6. आधार कार्ड नंबर/Aadhar Card Number:.....

## 7. माता पिता का विवरण/Details of Mother&amp; Father:

क्र.सं. S.No.	माता/Mother	पिता / Father
(i)	नाम (स्पष्ट शब्दों में)/ Name ( In Capital Letter)	
(ii)	राष्ट्रीयता (Nationality)	
(iii)	व्यवसाय (Occupation)	
(iv)	कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरभाष / Name of the Office, Full Address & Telephone Number.	
(v)	पूर्ण आवासीय पता व दूरभाष (प्रमाण सहित)/ Full Residential Address & Telephone No. (With Proof)	
(vi)	विद्यालय से दूरी (कि.मी. में)/Distance from KV in KM.	
(vii)	मूल वेतन / Basic Pay	
(viii)	पिछले 7 वर्षों में स्थानान्तरण की संख्या/ No of Transfers in last 7 years (As on 31/03/2020)	
(ix)	माता-पिता की सेवा श्रेणी/ Service Category of Parent	
(x)	कर्मचारी कोड (यदि है तो ) / Emp. Code (If Any)	
(xi)	E-Mail Id:	

- I certify that the above entries are true to the best of my knowledge.

दिनांक/Date:

अभिभावक के हस्ताक्षर/Signature of Guardian

## सेवा प्रमाण-पत्र/SERVICE CERTIFICATE

(केन्द्रीय सरकार/Central Govt.)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती-----, पद-----

कार्यालय/मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। वे रक्षा सेवा/ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/एस.एस.बी./ असम राइफल्स /आई.टी.बी.पी./सीमा सुरक्षा बल/एन.एस.जी./एस.पी.जी./सी.आई.एस.एफ./केन्द्रीय सरकार स्वायत्त सस्था अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो पूर्ण या आंशिक रूप से केंद्र सरकार से वित्त-पोषित है, के नियमित कर्मचारी हैं तथा उनकी सेवा अस्थानांतरणीय है/पूर्ण भारत में कहीं भी स्थानांतरणीय है।

Certified that Shri/Smt.....Designation.....is working as regular employee in the office/Ministry of ..... He/She is a regular employee of Defence Service /ITBP/ CRPF/BSF/NSG/SPG/CISF/SSB/Assam Rifles/Central Govt./Autonomous Body/Public Sector Undertaking fully financed /partially financed by Central Govt. and his/her services are non-transferable/transferable anywhere in india

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर

(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)

Signature of Head of the Office

(With Name, Designation and Office Stamp)

स्थान/Place \_\_\_\_\_

दिनांक/Date \_\_\_\_\_

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या \_\_\_\_\_

Complete address and Telephone No. of office \_\_\_\_\_

## सेवा प्रमाण-पत्र/SERVICE CERTIFICATE

(राज्य-सरकार/State Govt.)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती-----, -----  
-----कार्यालय/मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। तथा उनकी सेवा अस्थानांतरणीय है/पूर्ण राज्य में कहीं भी स्थानांतरणीय है।

Certified that Shri/Smt..... is permanently working in the office/Ministry of ..... and his/her services are non-transferable/transferable anywhere in State.

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर

(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)

Signature of Head of the Office

(With Name, Designation and Office Stamp)

स्थान/Place \_\_\_\_\_

दिनांक/Date \_\_\_\_\_

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या \_\_\_\_\_

Complete address and Telephone No. of office \_\_\_\_\_

**स्थानांतरण संख्या प्रमाण-पत्र/CERTIFICATE OF NUMBER OF TRANSFERS**

मैं, \_\_\_\_\_ (नाम) \_\_\_\_\_ (रैंक/पदनाम) \_\_\_\_\_ (कार्यालय),  
 एतद द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ पिछले सात साल (31.03.2020 तक) में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेरे  
 \_\_\_\_\_ (अंको व शब्दों में) स्थानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया है-

I, \_\_\_\_\_ (Name) \_\_\_\_\_ (rank/ designation) of \_\_\_\_\_ (office), do  
 hereby certify that during the past 7 years (up to 31.03.2020 I have been transferred \_\_\_\_\_  
 times (in figures & in words) from one station to another, the details of which are given as under :-

क्र. स. S. No.	कार्यालय/ यूनिट Office/Unit	स्थान Place	रैंक/पदनाम Rank/Designation	दिनांक/Date		ठहरने की अवधि Period of stay	आदेश संख्या Order No.
				से/ From	तक/To		
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							

मैं जानता/जानती हूँ कि यदि उपरोक्त तथ्य गलत पाए गए तो मेरा बच्चा केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए  
 अयोग्य हो जाएगा। I know that if the above-mentioned facts are found incorrect, my child will be disqualified for  
 admission in Kendriya Vidyalaya.

माता/पिता के हस्ताक्षर  
 Signature of Parent

**प्रतिहस्ताक्षर/Countersignature**

मैं, \_\_\_\_\_ (नाम) \_\_\_\_\_ (रैंक/पदनाम) \_\_\_\_\_  
 (कार्यालय), एतद द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण को कार्यालय-आलेखों से जाँच लिया गया है व सही  
 पाया गया है।

I, \_\_\_\_\_ (name) \_\_\_\_\_ (rank/designation) of \_\_\_\_\_  
 (unit/department) hereby certify that the particulars given in above have been authenticated by the records held in  
 the office and found correct.

स्थान/Place \_\_\_\_\_

दिनांक/Date \_\_\_\_\_

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर  
 (नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)  
 Signature of Head of the Office  
 (With Name, Designation and Office Stamp)

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या \_\_\_\_\_

Complete address and Telephone No. of office \_\_\_\_\_

**टिपणी/Note-**

एक स्थान पर ठहरने की अवधि कम से कम छह मास होनी चाहिए।  
 Period of posting/stay at a place should be minimum six months.

सेवा-कालीन मृत्यु प्रमाण-पत्र / DIED IN HARNESS CERTIFICATE  
(केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए/Only for Central Govt. Employees)

प्रमाणित किया जाता है कि कुमार/कुमारी ----- स्वर्गीय  
श्री/श्रीमती -----के पुत्र/पुत्री हैं जो -----  
(कार्यालय/विभाग) में नियमित रूप से सेवारत थे/थीं और उनका देहावसान सेवाकाल की अवधि में  
दिनांक -----को हो गया था।

Certified that Master/Miss \_\_\_\_\_ is the son/daughter of Late Sh./Smt.  
\_\_\_\_\_ who was regular employee of \_\_\_\_\_  
(Office/Department) and he/she died in harness (while in service) on \_\_\_\_\_ (date).

स्थान/Place \_\_\_\_\_  
दिनांक/Date \_\_\_\_\_

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर  
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)  
Signature of Head of the Office  
(With Name, Designation and Office Stamp)

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या \_\_\_\_\_  
Complete address and Telephone No. of office \_\_\_\_\_